



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092024-256978  
CG-DL-E-09092024-256978

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3506]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2024/भाद्र 15, 1946

No. 3506]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2024/BHADRA 15, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का. आ. 3836(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 413(अ) तारीख 01/02/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के एस.ए.एस नगर, मोहाली जिले में अम्बाला-शहजादपुर-नारायणगढ़- कालाअम्ब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.32.996 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 03/02/2024 " को "इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी)" और "अजीत (पंजाबी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

#### अनुसूची

पंजाब राज्य के एस.ए.एस नगर, मोहाली जिले में अम्बाला-शहजादपुर-नारायणगढ़- कालाअम्ब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.32.996 तक के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब			जिले का नाम: एस.ए.एस नगर मोहाली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: डेरा बस्सी					
गांव का नाम: उंताला (173)					
1	1005	निजी	चाही	0.0042	गुलाब सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 12 भाग, परमजीत सिंह केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 12 भाग 1005
2	1006	निजी	चाही	0.0084	गुलाब सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 12 भाग, परमजीत सिंह केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 12 भाग, 1006
3	1007	निजी	चाही	0.0042	गुलाब सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 1/2 भाग, परमजीत सिंह केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 1/2 भाग 1007
4	1008	निजी	चाही	0.0084	गुलाब सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 1/2 भाग, परमजीत सिंह केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 1/2 भाग 1008
5	1009	निजी	चाही	0.0084	गुलाब सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 1/2 भाग, परमजीत सिंह केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह

					1/2 भाग 1009
6	1011	निजी	चाही	0.0042	गुलाब सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 1/2 भाग, परमजीत सिंह केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 1/2 भाग 1011
7	1012	निजी	चाही	0.0042	गुलाब सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 1/2 भाग, परमजीत सिंह केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 1/2 भाग 1012
8	1018	निजी	चाही	0.0042	गुलाब सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 1/2 भाग, परमजीत सिंह केहर सिंह पुत्र पूरन सिंह 1/2 भाग 1018
9	1019	निजी	चाही	0.0042	महिमा पुत्र जीतू पुत्र जय सिंह 1/32 भाग, मदन पाल पुत्र जीतू पुत्र जय सिंह 1/32 भाग, सुखदेव सिंह पुत्र दाखिया 1/32 भाग, हजारा सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र मुताब सिंह 1/4 भाग, जंग सिंह पुत्र गुलजार सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/16 भाग, दीदार सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र मुताब सिंह 1/8 भाग, हकिया पुत्र जय राम 1/8 भाग, बलवंती विधवा पूरन सिंह पुत्र जय सिंह 1/32 भाग, कामिनी पुत्री पूरन सिंह पुत्र जय सिंह 1/32 भाग, मतेसी पुत्री पूरन सिंह पुत्र जय सिंह 1/32 भाग, अमरो पुत्री पूरन सिंह पुत्र जय सिंह 1/32 भाग, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह 1/40 भाग, जोगिंदर सिंह पुत्र सरदार सिंह 1/40 भाग, राजकुमार पुत्र सरदार सिंह 1/40 भाग, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह 1/40 भाग, बलबीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र सरदार सिंह 1/40 भाग, मनजीत कौर विधवा गुरसरन सिंह पुत्र हजारा सिंह 1/48

					भाग, रणदीप सिंह पुत्र गुरसरन सिंह पुत्र हजारा सिंह 1/48 भाग, हरदीप सिंह पुत्र गुरसरन सिंह पुत्र हजारा सिंह 1/48 भाग, सुखजिंदर कौर पत्नी जसविंदर सिंह पुत्र सिंह राम 1/32 भाग 1019
10	1022	निजी	चाही	0.0042	सिंह राम पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र बख्तर 1/2 भाग, अजब सिंह पुत्र धनीराम पुत्र हमेला 1/10 भाग, जमील सिंह पुत्र धनीराम पुत्र हमेला 1/10 भाग, मान सिंह पुत्र धनीराम पुत्र हमेला 1/10 भाग, समशेर सिंह पुत्र धनीराम पुत्र हमेला 1/10 भाग, सलेश पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्र धनीराम 1/10 भाग और सिंह राम पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र बख्तर सिंह 1022
11	1023	निजी	चाही	0.0042	सिंह राम पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र बख्तर 1/2 भाग, अजब सिंह पुत्र धनीराम पुत्र हमेला 1/10 भाग, जमील सिंह पुत्र धनीराम पुत्र हमेला 1/10 भाग, मान सिंह पुत्र धनीराम पुत्र हमेला 1/10 भाग, समशेर सिंह पुत्र धनीराम पुत्र हमेला 1/10 भाग, सलेश पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्र धनीराम 1/10 भाग और सिंह राम पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र बख्तर सिंह 1023
12	1107	निजी	चाही	0.0042	करमजीत सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग, अमरीक सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग, बलदीप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग, सुखदीप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग 1107
13	1109	निजी	चाही	0.0042	करमजीत सिंह पुत्र गुरदयाल

					सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग, अमरीक सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग, बलदीप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग, सुखदीप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग 1109
14	1110	निजी	चाही	0.0042	करमजीत सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग, अमरीक सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग, बलदीप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग, सुखदीप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग 1110
15	1111	निजी	चाही	0.0169	करमजीत सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग, अमरीक सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग, बलदीप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग, सुखदीप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मुखी राम 1/4 भाग 1111
16	1120	निजी	चाही	0.0042	निर्मल सिंह पुत्र पाला सिंह पुत्र मुख राम 1/2 भाग, दीपक सिंह निर्मल सिंह पुत्र पाला सिंह 1/3 भाग, पाले देवी पत्नी पाला सिंह 1/6 भाग 1120
17	1121	निजी	चाही	0.0084	निर्मल सिंह पुत्र पाला सिंह पुत्र मुख राम 1/2 भाग, दीपक सिंह निर्मल सिंह पुत्र पाला सिंह 1/3 भाग, पाले देवी पत्नी पाला सिंह 1/6 भाग 1121
18	563	निजी	चाही	0.0801	महिंदर सिंह पुत्र नानक पुत्र पदिया 154/3571 विनय सोहल पत्नी सुभाष सोहल 17533197/95309932864 गुरचरण कौर पत्नी जसपाल

					<p>सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 भाग, दलवीर सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 भाग, बलवीर सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 हिस्सा, शिवक सोहल पुत्र सुभाष सोहल 23169927/476549664320 हिस्सा, गुरमुख सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह 4663/35720 हिस्सा, गुरमुख सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह 1087/14284 हिस्सा, सुरमुख सिंह पुत्र बख्शीश सिंह पुत्र नानक सिंह 2477/35720 हिस्सा, बलविंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र दिल राम 1/12 भाग, मलकीत सिंह पुत्र दिल राम पुत्र नानक 1/12 भाग, पलविंदर सिंह पुत्र बिक्रम सिंह पुत्र दिल राम 1/12 हिस्सा, गुरजीत कौर पत्नी बलजिंदर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह निवासी गांव करधान डाकघर औद्योगिक क्षेत्र अंबाला (हरियाणा) 1209/14288 हिस्सा, और महिंदर सिंह पुत्र नानक पुत्र पाडिया हिस्सेदार बया बलवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र महिंदर सिंह 1/16 भाग, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग, गुरुमीत सिंह पुत्र हरविंदर सिंह 1/6 भाग, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह दलीप सिंह 1/144 भाग 563</p>
19	564	निजी	चाही	0.0211	<p>महिंदर सिंह पुत्र नानक पुत्र पदिया 154/3571 विनय सोहल पत्नी सुभाष सोहल 17533197/95309932864 गुरचरण कौर पत्नी जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 भाग, दलवीर सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12</p>

					<p>भाग, बलबीर सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 हिस्सा, शिवक सोहल पुत्र सुभाष सोहल 23169927/476549664320 हिस्सा, गुरमुख सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह 4663/35720 हिस्सा, गुरमुख सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह 1087/14284 हिस्सा, सुरमुख सिंह पुत्र बख्शीश सिंह पुत्र नानक सिंह 2477/35720 हिस्सा, बलविंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र दिल राम 1/12 भाग, मलकीत सिंह पुत्र दिल राम पुत्र नानक 1/12 भाग, पलविंदर सिंह पुत्र बिक्रम सिंह पुत्र दिल राम 1/12 भाग, गुरजीत कौर पत्नी बलजिंदर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह निवासी गांव करधान डाकघर औद्योगिक क्षेत्र अम्बाला (हरियाणा) 1209/14288 भाग, और महिंदर सिंह पुत्र नानक पुत्र पाडिया हिस्सेदार बया बलबीर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र महिंदर सिंह 1/16 भाग, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग, गुरुमीत सिंह पुत्र हरविंदर सिंह 1/6 भाग, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग, राज कुमार पुत्र सरदार पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग 564</p>
20	566	निजी	चाही	0.2782	<p>महिंदर सिंह पुत्र नानक पुत्र पदिया 154/3571 विनय सोहल पत्नी सुभाष सोहल 17533197/95309932864 गुरचरण कौर पत्नी जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 भाग, दलबीर सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 भाग, बलबीर सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 हिस्सा, शिवक सोहल पुत्र</p>

					<p>सुभाष सोहल 23169927/476549664320 हिस्सा, गुरमुख सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह 4663/35720 हिस्सा, गुरमुख सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह 1087/14284 हिस्सा, सुरमुख सिंह पुत्र बख्शीश सिंह पुत्र नानक सिंह 2477/35720 हिस्सा, बलविंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र दिल राम 1/12 भाग, मलकीत सिंह पुत्र दिल राम पुत्र नानक 1/12 भाग, पलविंदर सिंह पुत्र बिक्रम सिंह पुत्र दिल राम 1/12 भाग, गुरजीत कौर पत्नी बलजिंदर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह निवासी गांव करधान डाकघर औद्योगिक क्षेत्र अम्बाला (हरियाणा) 1209/14288 भाग, और महिंदर सिंह पुत्र नानक पुत्र पाडिया हिस्सेदार बया बलवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र महिंदर सिंह 1/16 भाग, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग, गुरुमीत सिंह पुत्र हरविंदर सिंह 1/6 भाग, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग, राज कुमार पुत्र सरदार पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग 566</p>
21	567	निजी	चाही	0.0379	<p>महिंदर सिंह पुत्र नानक पुत्र पदिया 154/3571 विनय सोहल पत्नी सुभाष सोहल 17533197/95309932864 गुरचरण कौर पत्नी जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 भाग, दलवीर सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 भाग, बलवीर सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 हिस्सा, शिवक सोहल पुत्र सुभाष सोहल 23169927/476549664320 हिस्सा, गुरमुख सिंह पुत्र</p>



					बलजिंदर सिंह 4663/35720 हिस्सा, गुरमुख सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह 1087/14284 हिस्सा, सुरमुख सिंह पुत्र बख्शीश सिंह पुत्र नानक सिंह 2477/35720 हिस्सा, बलविंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र दिल राम 1/12 भाग, मलकीत सिंह पुत्र दिल राम पुत्र नानक 1/12 भाग, पलविंदर सिंह पुत्र बिक्रम सिंह पुत्र दिल राम 1/12 भाग, गुरजीत कौर पत्नी बलजिंदर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह निवासी गांव करधान डाकघर औद्योगिक क्षेत्र अम्बाला (हरियाणा) 1209/14288 भाग, और महिंदर सिंह पुत्र नानक पुत्र पाडिया हिस्सेदार बया बलवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र महिंदर सिंह 1/16 भाग, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग, गुरुमीत सिंह पुत्र हरविंदर सिंह 1/6 भाग, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग, राज कुमार पुत्र सरदार पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग 567
22	574	निजी	चाही	0.0169	महिंदर सिंह पुत्र नानक पुत्र पदिया 154/3571 विनय सोहल पत्नी सुभाष सोहल 17533197/95309932864 गुरचरण कौर पत्नी जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 भाग, दलबीर सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 भाग, बलबीर सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र रिखिया राम 1/12 हिस्सा, शिवक सोहल पुत्र सुभाष सोहल 23169927/476549664320 हिस्सा, गुरमुख सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह 4663/35720 हिस्सा, गुरमुख सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह 1087/14284

					<p>हिस्सा, सुरमुख सिंह पुत्र बख्शीश सिंह पुत्र नानक सिंह 2477/35720 हिस्सा, बलविंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र दिल राम 1/12 भाग, मलकीत सिंह पुत्र दिल राम पुत्र नानक 1/12 भाग, पलविंदर सिंह पुत्र बिक्रम सिंह पुत्र दिल राम 1/12 भाग, गुरजीत कौर पत्नी बलजिंदर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह निवासी गांव करधान डाकघर औद्योगिक क्षेत्र अम्बाला (हरियाणा) 1209/14288 भाग, और महिंदर सिंह पुत्र नानक पुत्र पाडिया हिस्सेदार बया बलवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र महिंदर सिंह 1/16 भाग, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग, गुरुमीत सिंह पुत्र हरविंदर सिंह 1/6 भाग, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग, राज कुमार पुत्र सरदार पुत्र दलीप सिंह 1/144 भाग 574</p>
23	592	निजी	चाही	0.0042	<p>सुरजीत सिंह पुत्र मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/12 भाग, लाभ सिंह पुत्र मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/12 भाग, नसीब सिंह पुत्र मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/12 भाग, जागीर सिंह पुत्र मलूका पुत्र महना सिंह 1/4 भाग, बाबू सिंह पुत्र मलूका पुत्र मोठ सिंह 1/4 भाग, मलूका पुत्र मिहा सिंह पुत्र गुलज़ार सिंह 1/20 भाग, हाकिम सिंह पुत्र मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/20 भाग, अजीब सिंह पुत्र मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/20 भाग, रणबीर सिंह उत्तर मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/20 भाग, रविंदर सिंह पुत्र करनाल सिंह पुत्र मिहा सिंह 1/20 भाग, और अजीब सिंह पुत्र मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/5 भाग, मिहा सिंह पुत्र गुलज़ार सिंह पुत्र मलूका</p>

					1/5 भाग, रणवीर सिंह पुत्र मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/5 भाग, रविंदर सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र मिहा सिंह 1/5 भाग, हाकम सिंह पुत्र मलूका 1/5 भाग 592
24	593	निजी	चाही	0.0084	सुरजीत सिंह पुत्र मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/12 भाग, लाभ सिंह पुत्र मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/12 भाग, नसीब सिंह पुत्र मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/12 भाग, जागीर सिंह पुत्र मलूका पुत्र महना सिंह 1/4 भाग, बाबू सिंह बेटा मलूका पुत्र मोठ सिंह 1/4 भाग, मलूका पुत्र मिहा सिंह पुत्र गुलज़ार सिंह 1/20 भाग, हाकिम सिंह पुत्र मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/20 भाग, अजीब सिंह पुत्र मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/20 भाग, रणवीर सिंह उत मिहा सिंह पुत्र मलूका 1/20 भाग, रविंदर सिंह पुत्र करनाल सिंह पुत्र मिहा सिंह 1/20 भाग, और जहांगीर सिंह पुत्र मलूका सिंह पुत्र मिहा सिंह 593
25	629	निजी	चाही	0.1138	मलकीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र बचन सिंह 213/980 भाग, हरप्रीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र बचन सिंह 55/196 जोगिंदर सिंह पुत्र सारदा सिंह पुत्र चूहड़ सिंह 123/490 भाग, अमर सिंह पुत्र सारदा सिंह पुत्र चूहड़ सिंह 123/490 भाग 629
26	630	निजी	चाही	0.0084	मलकीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र बचन सिंह 213/980 भाग, हरप्रीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र बचन सिंह 55/196 जोगिंदर सिंह पुत्र सारदा सिंह पुत्र चूहड़ सिंह 123/490 भाग, अमर सिंह पुत्र सारदा सिंह पुत्र चूहड़ सिंह 123/490 भाग

					630
27	631	निजी	चाही	0.2403	मलकीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह पुत्र बचन सिंह 213/980 भाग, हरप्रीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र बचन सिंह 55/196 जोगिंदर सिंह पुत्र सारदा सिंह पुत्र चूहड़ सिंह 123/490 भाग, अमर सिंह पुत्र सारदा सिंह पुत्र चूहड़ सिंह 123/490 भाग 631
28	632	निजी	चाही	0.0042	हरदयाल सिंह पुत्र सवाई पुत्र बाबू सिंह 285/944 भाग, हरप्रीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र बचन सिंह 89/944 भाग, अमरीक सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह सिंह पुत्र सवाई 1781/11800 भाग, जसवन्त सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र सवाई 1781/11800 भाग, बलजिंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र सवाई 3563/23600 भाग, हरिंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र सवाई 3563/23600 632
29	633	निजी	चाही	0.0295	हरदयाल सिंह पुत्र सवाई पुत्र बाबू सिंह 285/944 भाग, हरप्रीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र बचन सिंह 89/944 भाग, अमरीक सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह सिंह पुत्र सवाई 1781/11800 भाग, जसवन्त सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र सवाई 1781/11800 भाग, बलजिंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र सवाई 3563/23600 भाग, हरिंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र सवाई 3563/23600 633
30	638	निजी	चाही	0.0379	हरदयाल सिंह पुत्र सवाई पुत्र बाबू सिंह 285/944 भाग, हरप्रीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र बचन सिंह 89/944 भाग, अमरीक सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह सिंह पुत्र सवाई 1781/11800

					भाग, जसवन्त सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र सवाई 1781/11800 भाग, बलजिंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र सवाई 3563/23600 भाग, हरिंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र सवाई 3563/23600 638
31	639	निजी	चाही	0.0126	हरदयाल सिंह पुत्र सवाई पुत्र बाबू सिंह 285/944 भाग, हरप्रीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र बचन सिंह 89/944 भाग, अमरीक सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह सिंह पुत्र सवाई 1781/11800 भाग, जसवन्त सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र सवाई 1781/11800 भाग, बलजिंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र सवाई 3563/23600 भाग, हरिंदर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र सवाई 3563/23600 और गुलजार सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र रणजीत सिंह 5/24 भाग, बाबू सिंह पुत्र शिव दयाल पुत्र रणजीत सिंह पुत्र 5/24 भाग, बाबू सिंह पुत्र उम प्रकाश, रणजीत सिंह पुत्र 5/24 भाग, बाबू सिंह पुत्र सरदार सिंह रणजीत सिंह पुत्र 5/24 भाग, महिंदर पुत्री अर्जन सिंह 1/6 भाग, और उम प्रकाश पुत्र बाबू सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/4 भाग, गुलजार सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/4 भाग, सरदार सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/4 भाग, शिव दयाल पुत्र बाबू सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/4 भाग 639
32	879	निजी	चाही	0.0042	साहिब सिंह पुत्र नानक के पुत्र सदा का 1/3 भाग, रणदीप सिंह पुत्र नानक के पुत्र सदा का 1/3 भाग, बलबीर सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र सरदार सिंह का 1/12 भाग, पाल सिंह पुत्र सरदार

					सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/12 भाग, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप यूनियन 1/12 भाग, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप यूनियन 1/12 भाग,, 879
33	880	निजी	चाही	0.0042	साहिब सिंह पुत्र नानक के पुत्र सदा का 1/3 भाग, रणदीप सिंह पुत्र नानक के पुत्र सदा का 1/3 भाग, बलबीर सिंह पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र सरदार सिंह का 1/12 भाग, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/12 भाग, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप यूनियन 1/12 भाग, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप यूनियन 1/12 भाग, 880
34	882	निजी	चाही	0.0042	साहिब सिंह पुत्र नानक के पुत्र सदा का 1/3 भाग, रणदीप सिंह पुत्र नानक के पुत्र सदा का 1/3 भाग, बलबीर सिंह पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र सरदार सिंह का 1/12 भाग, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 1/12 भाग, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप यूनियन 1/12 भाग, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप यूनियन 1/12 भाग, 882
35	887	निजी	चाही	0.0042	साहिब सिंघ सोन नानक सोन 1 ओएफ 3 शेयर अमरजीत सिंघ सोन नानक सोन अल्वेज 149 ओएफ 4570098 पार्ट रणदीप सिंघ सोन नानक सोन अल्वेज 1 ओएफ 3 पार्ट सरदार सिंघ सोन जोगिंदर सिंघ 2 ओएफ 169 पार्ट पल सिंघ सोन सरदार सिंघ 9ओएफ 676 पार्ट राज कुमार सोन सरदार सिंघ 9 ओएफ 676 पार्ट करमजीत सिंघ सोन सरदार सिंघ 9 ओएफ 676 पार्ट

					सरदार सोन महिंद्र सिंह सोन बलबीर सिंह 9 ओएफ 676 पार्ट राज कुमार सोन सरदार सिंह सोन दलिप सिंह 5 ओएफ 676 पार्ट्स पल सिंह सोन सरदार सिंह सोन दलिप सिंह 5 ओएफ 676 पार्ट करमजीत सिंह सोन सरदार सिंह सोन दलिप सिंह 5 ओएफ 676 पार्ट सरदार सोन महिंद्र सिंह सोन बलबीर सिंह 5 ओएफ 676 पार्ट गुरमीत कौर वाइफ पलविंदर सिंह सोन जरनैल 2471 ओएफ 9014 पार्ट अमरजीत सिंह सोन नानक सोन सादा 1 ओएफ 2 पार्ट गुरमीत कौर वाइफ पलविंदर सिंह सोन जरनैल सिंह 1 ओएफ 2 पार्ट 887
36	888	निजी	चाही	0.0042	साहिब सिंह के बेटे नानक के बेटे का एक तिहाई हिस्सा, अमरजीत सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 149/4570098 हिस्सा, रणदीप सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 1/3 हिस्सा, सरदार सिंह के बेटे जोगिंदर सिंह का 2/169 हिस्सा, पाल सिंह के बेटे सरदार सिंह का 9 हिस्सा /676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, सरदार पुत्र महिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 9/676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 हिस्सा, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग सरदार पुत्र महिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 5/676 भाग गुरमीत कौर पत्नी पलविंदर सिंह पुत्र जरनैल 2471/9014 भाग, अमरजीत सिंह पुत्र नानक बेटा सदा 1/2 भाग, गुरमीत कौर पत्नी

					पलविन्दर सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/2 भाग, 888
37	889	निजी	चाही	0.0042	साहिब सिंह के बेटे नानक के बेटे का एक तिहाई हिस्सा, अमरजीत सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 149/4570098 हिस्सा, रणदीप सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 1/3 हिस्सा, सरदार सिंह के बेटे जोगिंदर सिंह का 2/169 हिस्सा, पाल सिंह के बेटे सरदार सिंह का 9 हिस्सा /676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 9/676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 हिस्सा, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 5/676 भाग गुरमीत कौर पत्नी पलविंदर सिंह पुत्र जरनैल 2471/9014 भाग, अमरजीत सिंह पुत्र नानक बेटा सदा 1/2 भाग, गुरमीत कौर पत्नी पलविन्दर सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/2 भाग, 889
38	891	निजी	चाही	0.0042	साहिब सिंह के बेटे नानक के बेटे का एक तिहाई हिस्सा, अमरजीत सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 149/4570098 हिस्सा, रणदीप सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 1/3 हिस्सा, सरदार सिंह के बेटे जोगिंदर सिंह का 2/169 हिस्सा, पाल सिंह के बेटे सरदार सिंह का 9 हिस्सा /676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, करमजीत सिंह



					पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 9/676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 हिस्सा, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 5/676 भाग गुरमीत कौर पत्नी पलविंदर सिंह पुत्र जरनैल 2471/9014 भाग, अमरजीत सिंह पुत्र नानक बेटा सदा 1/2 भाग, गुरमीत कौर पत्नी पलविन्दर सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/2 भाग, 891
39	899	निजी	चाही	0.0042	साहिब सिंह के बेटे नानक के बेटे का एक तिहाई हिस्सा, अमरजीत सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 149/4570098 हिस्सा, रणदीप सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 1/3 हिस्सा, सरदार सिंह के बेटे जोगिंदर सिंह का 2/169 हिस्सा, पाल सिंह के बेटे सरदार सिंह का 9 हिस्सा /676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 9/676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 हिस्सा, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 5/676 भाग गुरमीत कौर पत्नी पलविंदर सिंह पुत्र जरनैल 2471/9014 भाग, अमरजीत सिंह पुत्र नानक बेटा सदा 1/2 भाग, गुरमीत कौर पत्नी पलविन्दर सिंह पुत्र जरनैल सिंह

					1/2 भाग, 899
40	901	निजी	चाही	0.0295	साहिब सिंह के बेटे नानक के बेटे का एक तिहाई हिस्सा, अमरजीत सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 149/4570098 हिस्सा, रणदीप सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 1/3 हिस्सा, सरदार सिंह के बेटे जोगिंदर सिंह का 2/169 हिस्सा, पाल सिंह के बेटे सरदार सिंह का 9 हिस्सा /676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 9/676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 हिस्सा, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 5/676 भाग गुरमीत कौर पत्नी पलविंदर सिंह पुत्र जरनैल 2471/9014 भाग, अमरजीत सिंह पुत्र नानक बेटा सदा 1/2 भाग, गुरमीत कौर पत्नी पलविन्दर सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/2 भाग, 901
41	902	निजी	चाही	0.0042	साहिब सिंह के बेटे नानक के बेटे का एक तिहाई हिस्सा, अमरजीत सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 149/4570098 हिस्सा, रणदीप सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 1/3 हिस्सा, सरदार सिंह के बेटे जोगिंदर सिंह का 2/169 हिस्सा, पाल सिंह के बेटे सरदार सिंह का 9 हिस्सा /676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा,

					सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 9/676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 हिस्सा, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 5/676 भाग गुरमीत कौर पत्नी पलविंदर सिंह पुत्र जरनैल 2471/9014 भाग, अमरजीत सिंह पुत्र नानक बेटा सदा 1/2 भाग, गुरमीत कौर पत्नी पलविन्दर सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/2 भाग, 902
42	903	निजी	चाही	0.0042	साहिब सिंह के बेटे नानक के बेटे का एक तिहाई हिस्सा, अमरजीत सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 149/4570098 हिस्सा, रणदीप सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 1/3 हिस्सा, सरदार सिंह के बेटे जोगिंदर सिंह का 2/169 हिस्सा, पाल सिंह के बेटे सरदार सिंह का 9 हिस्सा /676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 9/676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 हिस्सा, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 5/676 भाग गुरमीत कौर पत्नी पलविंदर सिंह पुत्र जरनैल 2471/9014 भाग, अमरजीत सिंह पुत्र नानक बेटा सदा 1/2 भाग, गुरमीत कौर पत्नी पलविन्दर सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/2 भाग,

					903
43	904	निजी	चाही	0.0084	साहिब सिंह के बेटे नानक के बेटे का एक तिहाई हिस्सा, अमरजीत सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 149/4570098 हिस्सा, रणदीप सिंह के बेटे नानक के बेटे का हमेशा 1/3 हिस्सा, सरदार सिंह के बेटे जोगिंदर सिंह का 2/169 हिस्सा, पाल सिंह के बेटे सरदार सिंह का 9 हिस्सा /676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह 9/676 हिस्सा, सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 9/676 हिस्सा, राज कुमार पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 हिस्सा, पाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग करमजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र दलीप सिंह 5/676 भाग सरदार पुत्र मर्हिंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह 5/676 भाग गुरमीत कौर पत्नी पलविंदर सिंह पुत्र जरनैल 2471/9014 भाग, अमरजीत सिंह पुत्र नानक बेटा सदा 1/2 भाग, गुरमीत कौर पत्नी पलविन्दर सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/2 भाग, 904
44	933	निजी	चाही	0.0084	धर्मपाल पुत्र दीदार सिंह 20/4771 भाग, जय सिंह पुत्र दीदार सिंह 20/4771 भाग, मेवा सिंह पुत्र दीदार सिंह 20/4771 भाग, राजवीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र अमर सिंह 79/4771 भाग, धर्मवीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र अमर सिंह 80/4771 भाग, गुरुमीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र अमर सिंह 80/4771 भाग, करनैल सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र कुरा 158/4771 भाग, अमर सिंह पुत्र साहिब सिंह लड़की पुत्र

					<p>239/4771 भाग, अमर सिंह पुत्र अजीब सिंह पुत्र विरगो 239 /4771 हिस्सा, सिंह पुत्र हंस राज पुत्र इंदर 119/4771 हिस्सा, गुरपाल सिंह पुत्र हंस राज पुत्र इस्सर 10157343/454485460 हिस्सा, इंदर सिंह पुत्र किरण पाल पुत्र बंटी सिंह पुत्र इंदर सिंह 239/4771 हिस्सा, देवो विधवा संत सिंह पुत्र छजू 170 /4771 हिस्सा, तेजपाल उर्फ तेजा सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र स्पर्श 321/ 4771 हिस्सा, बलजिंदर सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र छजू 369/ 4771 हिस्सा, रघुवीर सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र छजू 4803/76336 हिस्सा, बलवीर सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र छजू 370 /4771 हिस्सा, हाकिम सिंह पुत्र संत सिंह 120/4771 हिस्सा, चूहड़ सिंह पुत्र दीदार सिंह 20/4771 हिस्सा, बलवीर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र अमर सिंह 60/4771 हिस्सा, कवलजीत कौर पत्नी अजीब सिंह पुत्र अमर सिंह 48/4771 हिस्सा, हाकिम सिंह के पुत्र अनिकेत संत सिंह के पुत्र 13/367 भाग, 933</p>
45	934	निजी	चाही	0.0042	<p>धर्मपाल पुत्र दीदार सिंह 20/4771 भाग, जय सिंह पुत्र दीदार सिंह 20/4771 भाग, मेवा सिंह पुत्र दीदार सिंह 20/4771 भाग, राजवीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र अमर सिंह 79/4771 भाग, धर्मवीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र अमर सिंह 80/4771 भाग, गुरुमीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र अमर सिंह 80/4771 भाग, करनैल सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र कुरा 158/4771 भाग, अमर सिंह पुत्र साहिब सिंह लड़की पुत्र 239/4771 भाग, अमर सिंह</p>

					<p>पुत्र अजीब सिंह पुत्र विरगो 239/4771 हिस्सा, सिंह पुत्र हंस राज पुत्र इंदर 119/4771 हिस्सा, गुरपाल सिंह पुत्र हंस राज पुत्र इस्सर 10157343/454485460 हिस्सा, इंदर सिंह पुत्र किरण पाल पुत्र बंटी सिंह पुत्र इंदर सिंह 239/4771 हिस्सा, देवो विधवा संत सिंह पुत्र छजू 170/4771 हिस्सा, तेजपाल उर्फ तेजा सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र स्पर्श 321/4771 हिस्सा, बलजिंदर सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र छजू 369/4771 हिस्सा, रघुवीर सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र छजू 4803/76336 हिस्सा, बलवीर सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र छजू 370/4771 हिस्सा, हाकिम सिंह पुत्र संत सिंह 120/4771 हिस्सा, चूहड़ सिंह पुत्र दीदार सिंह 20/4771 हिस्सा, बलबीर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र अमर सिंह 60/4771 हिस्सा, कवलजीत कौर पत्नी अजीब सिंह पुत्र अमर सिंह 48/4771 हिस्सा, हाकिम सिंह के पुत्र अनिकेत संत सिंह के पुत्र 13/367 भाग, 934</p>
गांव का नाम: मालन (172)					
46	17//25	निजी	चाही	0.0084	<p>गुरमेज सिंह पुत्र सरूप सिंह पुत्र इंदर सिंह 1/12 भाग गुरबख्श सिंह पुत्र सरूप सिंह पुत्र इंदर सिंह 1/12 भाग करम सिंह पुत्र कृष्ण पुत्र नारायण 1/4 भाग पनमेल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र कृष्ण 1/12 भाग कर्नल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र कृष्ण 1/12 भाग जनरल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र कृष्ण 1/12 भाग नछतर सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र विप्रम सिंह 1/12 भाग कुलदीप सिंह 1/12 भाग तेजा सिंह पुत्र विपराम सिंह 1/12 भाग</p>

					जगतार सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र वपाराराम सिंह 1/12 भाग नसीब सिंह पुत्र सरूप सिंह निवासी मसान 1/12 भाग करनैल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र कृष्णन 1/6 भाग करम सिंह पुत्र कृष्ण पुत्र नारायण 1/2 भाग जनरल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र कृष्णन 1/6 भाग पनमेल सिंह पुत्र कृष्ण 1/6 भाग 17//25
47	18//12	निजी	चाही	0.0042	गुरमेज सिंह पुत्र सरूप सिंह पुत्र इंदर सिंह 1/6 भाग गुरबख्श सिंह पुत्र सरूप सिंह पुत्र इंदर सिंह 1/6 भाग नछत्तर सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र वसराम सिंह 1/6 भाग कुलदीप सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र वसराम सिंह 1/6 भाग जगतार सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र वसराम सिंह पुत्र 1/6 नसीब सिंह पुत्र सरूप सिंह 1/6 भाग 18//12
48	18//14/2	निजी	चाही	0.0042	सुरेश पाल पुत्र रोशन लाल पुत्र हंसराज 1/2 भाग सुखबीर सिंह पुत्र रोशन लाल पुत्र हंसराज 1/2 भाग 18//14/2
49	18//19/2	निजी	चाही	0.0042	करम सिंह पुत्र कृष्ण पुत्र नारायण 1/2 भाग सनरमेल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र कृष्ण गुरदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र कृष्णा 1/6 भाग जरनैल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र कृष्ण 1/6 भाग 18//19/2
50	18//4	निजी	चाही	0.0379	बलवीर सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र बख्तोर सिंह बिलहारिन 131/2300 भाग, वा निज रहिन 37/575 भाग, दलवीर पुत्र राम सिंह पुत्र बख्तोर सिंह बिलहारिन 131/2300 भाग, वा निज रहिन 37/575 भाग, हटेश्वर निवासी राजन गोयल पुत्र विजय गोयल 74/575 भाग

					<p>बिलहरिन, मुरथिन राम सिंह  पुत्र बख्तर सिंह पुत्र जोत राम  74/575 भाग बिलहरिन,  भूपिंदर सिंह पुत्र बलविंदर सिंह  121/1150 भाग बिलहरिन,  जसमेर सिंह पुत्र /o बलविंदर  सिंह 121/1150 पार्ट  बिलहारिन, तेजो देवी विडवा  रामकिशन पुत्र बख्तोर सिंह  12/575 हिस्सा बिलहारिन,  राजविंदर कौर पुत्री राम किशन  पुत्र बख्तोर सिंह 12/575  हिस्सा, बिलहारिन अंग्रेज कौर  पुत्री राम किशन /o बख्तोर  सिंह 12/575 शेयर बिलहारिन,  रघवीर सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र  बख्तोर सिंह 42/575 हिस्सा  बिलहरिन, अंग्रेज सिंह पुत्र राम  सिंह पुत्र बख्तोर सिंह 1/575  हिस्सा बिलहरिन, दलवीर सिंह  पुत्र ओ राम सिंह पुत्र बख्तोर  सिंह 17/115 हिस्सा  बिलहारिन, बलवीर सिंह पुत्र  राम सिंह पुत्र बख्तर सिंह  17/115 हिस्सा बिलहारिन,  गुलजार सिंह पुत्र चरणजीत  सिंह 41/1150 हिस्सा  बिलहारिन, सुरेंद्र सिंह पुत्र  गुलजार सिंह निवासी गोडा  41/1150 हिस्सा बिलहरिन,  सरश पाल पुत्र रोशन लाल पुत्र  हंशराज 2/23 हिस्सा  बिलहरिन, सुखवीर सिंह पुत्र  रोशन लाल पुत्र हंशराज सिंह  2/23 हिस्सा बिलहरिन।  18/4</p>
51	21//1	निजी	चाही	0.0042	<p>गुरजिंदर सिंह पुत्र नसीब सिंह  पुत्र स्वरूप सिंह 1/24 भाग,  गुरबख्श सिंह पुत्र स्वरूप सिंह  पुत्र इंदर सिंह 1/6 हिस्सा  गुरमेज सिंह पुत्र स्वरूप सिंह  पुत्र इंदर सिंह 1/6 भाग,  जसविंदर सिंह पुत्र नसीब सिंह  पुत्र इंदर सिंह स्वरूप सिंह 1/24  शेयरधारक तेजा सिंह पुत्र  वरयाम सिंह पुत्र इंदर सिंह 1/2</p>



					भाग, नक्षत्र कौर विधवा नसीब सिंह पुत्र स्वरूप सिंह 1/4 भाग, मंजीत कायार डी /ओ नसीब सिंह पुत्र स्वरूप सिंह 1/24 भाग गैर रूशी हिस्सेदारा। 21//1
52	22//12	निजी	चाही	0.0843	जोगिंदर सिंह पुत्र ज्योति पुत्र 1/4 हिस्सा, बलदेव सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्री ज्योति सिंह 3/8 हिस्सा, काशनी पत्नी जोगिंदर सिंह पुत्री ज्योति 3/8 शेयर 22//12
53	22//13	निजी	चाही	0.0042	जोगिंदर सिंह पुत्र ज्योति पुत्र 1/4 हिस्सा, बलदेव सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्री ज्योति सिंह 3/8 हिस्सा, काशनी पत्नी जोगिंदर सिंह पुत्री ज्योति 3/8 शेयर 22//13
54	22//4	निजी	चाही	0.0126	गुरमेज सिंह पुत्र स्वरूप सिंह पुत्र इंदर सिंह 1/12 भाग गुरबख्श सिंह पुत्र स्वरूप सिंह पुत्र इंदर सिंह 1/12 भाग करम सिंह कृष्ण पुत्र नारायण पुत्र 1/4 भाग गुरदेव सिंह पुत्र निरमैल सिंह पुत्र कृष्ण 1/12 भाग गुरदेव सिंह पुत्र सृष्टि , 1/12 भाग जरनैल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र कृष्ण 1/12 भाग नछतर सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र वरियाम सिंह 1/12 भाग जगतार सिंह पुत्र तेजा सिंह वरियाम सिंह 1/12 भाग नसीब सिंह पुत्र स्वरूप सिंह 1/12 भाग नसीब सिंह पुत्र सरूप सिंह भाग 1/12 भाग 22//4
55	22//8	निजी	चाही	0.1897	साधु पुत्र दयाल सिंह, आशा पुत्र और ज्योति पुत्र लेहना 1/4 भाग बलदेव सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र ज्योति 3/8 भाग कृष्णा पत्नी जोगिंदर सिंह पुत्र ज्योति 3/8 भाग

					22//8
गांव का नाम: राजापुर					
56	702	निजी	चाही	0.0211	समलात देह और रसवंदर पुत्र रतन पुत्र तुलसी 1/8 भाग पवन पुत्र रतन पुत्र तुलसी 1/8 भाग गुरसमत सिंह पुत्र रतन पुत्र तुलसी 1/8 भाग काका राम पुत्र मनोहर लाल पुत्र तुलसी 1/4 भाग सदन कुमार पुत्र मनोहर लाल पुत्र तुलसी 1 /4 भाग सोमनाथ पुत्र रतन पुत्र तुलसी 1/8 भाग गैर मौरुसी 702
57	703	निजी	चाही	0.0042	हाकिम सिंह पुत्र सबीन सिंह पुत्र ओरता सिंह 1/2 भाग जगदी सिंह पुत्र सबिन सिंह पुत्र ओरता सिंह 1/2 भाग और हाकिम सिंह पुत्र सबीन सिंह पुत्र ओरता सिंह 1/2 भाग और हाकिम सिंह पुत्र सबिन सिंह पुत्र ओरता सिंह सबला राशन 209 //289 आंशिक या व्यक्तिगत सहायता 80/289 सहायता सेवक राशन प्रेम सिंह पुत्र राम संवई पुत्र पोभ 703
58	704	निजी	चाही	0.0126	हाकिम सिंह पुत्र सबीन सिंह पुत्र ओरता सिंह 1/2 भाग जगदी सिंह पुत्र सबिन सिंह पुत्र ओरता सिंह 1/2 भाग और हाकिम सिंह पुत्र सबीन सिंह पुत्र ओरता सिंह 1/2 भाग और हाकिम सिंह पुत्र सबिन सिंह पुत्र ओरता सिंह सबला राशन 209 //289 आंशिक या व्यक्तिगत सहायता 80/289 सहायता सेवक राशन प्रेम सिंह पुत्र राम संवई पुत्र पोभ 704
59	735	निजी	चाही	0.0042	सरदार सिंह का बेटा दर्शनी देवी स्वाधवा सुभा सिंह 1/25 हिस्सा नसरिंदर कुमार का बेटा सुभा सिंह का बेटा सरदार सिंह 1/25

					हिस्सा दसविंदर कुमार का बेटा सुभा सिंह का बेटा 1/25 हिस्सा रसविंदर कुमार का बेटा सुभा सिंह का बेटा सरदार सिंह 1/25 हिस्सा कुमार का बेटा सुभा सिंह पुत्र सरदार सिंह 1/25 भाग राय सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र नाथू 1/5 भाग रणबीर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र नाथू 1/5 भाग रघबीर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र नाथू 1/5 भाग यशपाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र नाथू 1/5 बराबर 735
60	737	निजी	चाही	0.0253	हरफूल चंद पुत्र राला राम पुत्र रंगी राम 193/1965 भाग समलाल पुत्र राला राम पुत्र रंगी राम 941/6288 सहसा दीपक सरमा पुत्र जगपाल कुमार पुत्र राला राम 23/2096 भाग सीता देवी स्वधवा सबराज लाल पुत्र रिले राम 1/15 भाग सासव कुमार पुत्र सबराज लाल पुत्र रिला राम 1/15 भाग बाल सिंह पुत्र मान सिंह पुत्र फकीरा 17/786 भाग राय सिंह पुत्र मान संघ पुत्र फकीरा 17/786 भाग संजीव कुमार पुत्र वेद प्रकाश पुत्र राला राम 1/10 भाग राजीव कुमार पुत्र वेद प्रकाश पुत्र राला राम 1/10 भाग सबोजमोहन पुत्र केहर सिंह 1583/15720 भाग राजबाला पत्नी जल सिंह भार सिंह 40/393 भाग 737
61	740	निजी (ग्राम पंचायत)	जी. एम् रस्ता	0.0337	ग्राम पंचायत 740
62	741	निजी	चाही	0.0337	राजबाला स्वध जल सिंह पुत्र भरत सिंह 1/4 भाग राकेश कुमार पुत्र जल सिंह पुत्र भारत संघ 1/4 भाग सावनौद कुमार पुत्र जल सिंह पुत्र भरत सिंह 1/4 भाग जल सिंह पुत्र सतीश कुमार पुत्र भरत सिंह 1/4 भाग

					741
63	743	निजी	चाही	0.2023	राजबाला स्वध्व जल सिंह पुत्र भरत सिंह 1/4 भाग राकेश कुमार पुत्र जल सिंह पुत्र भारत संघ 1/4 भाग सावनौद कुमार पुत्र जल सिंह पुत्र भरत सिंह 1/4 भाग जल सिंह पुत्र सतीश कुमार पुत्र भरत सिंह 1/4 भाग 743
64	769	निजी (ग्राम पंचायत)	जी. एम् रस्ता	0.1054	ग्राम पंचायत 769
65	785	निजी	चाही	0.0927	सासव कुमार सोन ओएफ अमरनाथ सोन ओएफ राजा राम 1 ओएफ 2 पार्ट सरोज बाला स्वध्व ओएम प्रकाश सोन ओएफ अमर नाथ 1 ओएफ 8 पार्ट संजीव कुमार सोन ओएफ ओएम प्रकाश सोन ओएफ अमर नाथ पार्ट पवन कुमार सोन ओएफ ओएम प्रकाश सोन ओएफ अमर नाथ 1 ओएफ 8 पार्ट 785
66	786	निजी	चाही	0.0211	ससव कुमार, पुत्र अमरनाथ, पुत्र राजा राम, आधा भाग सरोज बाला, स्वधवा उम प्रकाश, पुत्र अमर नाथ, 1/8 भाग, संजीव कुमार, पुत्र उम्म प्रकाश, पुत्र अमर नाथ, भाग पवन कुमार, पुत्र उम्म प्रकाश पुत्र अमर नाथ का 1/8 भाग 786
67	787	निजी	चाही	0.2571	ससव कुमार, पुत्र अमरनाथ, पुत्र राजा राम, आधा भाग सरोज बाला, स्वधवा उम प्रकाश, पुत्र अमर नाथ, 1/8 भाग, संजीव कुमार, पुत्र उम्म प्रकाश, पुत्र अमर नाथ, भाग पवन कुमार, पुत्र उम्म प्रकाश पुत्र अमर नाथ का 1/8 भाग 787
68	788	निजी	चाही	0.0084	ससव कुमार, पुत्र अमरनाथ, पुत्र राजा राम, आधा भाग सरोज

					बाला, स्वध्वा उम प्रकाश, पुत्र अमर नाथ, 1/8 भाग, संजीव कुमार, पुत्र उम्म प्रकाश, पुत्र अमर नाथ, भाग पवन कुमार, पुत्र उम्म प्रकाश पुत्र अमर नाथ का 1/8 भाग 788
69	817	निजी	चाही	0.0211	सरदार सिंह का बेटा दर्शनी देवी स्वाध्वा सुभा सिंह 1/25 हिस्सा नसरिंदर कुमार का बेटा सुभा सिंह का बेटा सरदार सिंह 1/25 हिस्सा दसविंदर कुमार का बेटा सुभा सिंह का बेटा 1/25 हिस्सा रसविंदर कुमार का बेटा सुभा सिंह का बेटा सरदार सिंह 1/25 हिस्सा कुमार का बेटा सुभा सिंह पुत्र सरदार सिंह 1/25 भाग राय सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र नाथू 1/5 भाग रणबीर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र नाथू 1/5 भाग रघबीर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र नाथू 1/5 भाग यशपाल सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र नाथू 1/5 भाग 817
70	818/1	निजी	चाही	0.0253	सासव कुमार, अमरनाथ के पुत्र, राजा राम के पुत्र, 1/2 भाग सरोज बाला स्वध्वा, उम प्रकाश, अमर नाथ के पुत्र, 1/8 भाग, संजीव कुमार, पुत्र उम्म प्रकाश, अमर नाथ के पुत्र, भाग लीड पवन कुमार पुत्र, उम्म प्रकाश, पुत्र अमर नाथ 1/8 भाग 818/1
71	819	निजी	चाही	0.0464	ससव कुमार, पुत्र अमरनाथ, पुत्र राजा राम, आधा भाग सरोज बाला, स्वध्वा उम प्रकाश, पुत्र अमर नाथ, 1/8 भाग, संजीव कुमार, पुत्र उम्म प्रकाश, पुत्र अमर नाथ, भाग पवन कुमार, पुत्र उम्म प्रकाश पुत्र अमर नाथ का 1/8 भाग 819

72	820	निजी (ग्राम पंचायत)	जी.ऍम्. रस्ता	0.0295	ग्राम पंचायत 820
73	821/1	निजी	चाही	0.0042	सासव कुमार सोन ओएफ अमरनाथ सोन ओएफ राजा राम 1 ओएफ 2 पार्ट सरोज बाला स्वध्व ओएम प्रकाश सोन ओएफ अमर नाथ 1 ओएफ 8 पार्ट संजीव कुमार सोन ओएफ ओएम प्रकाश सोन ओएफ अमर नाथ पार्ट पवन कुमार सोन ओएफ ओएम प्रकाश सोन ओएफ अमर नाथ 1 ओएफ 8 पार्ट 821/1
74	822/2	निजी	चाही	0.1602	सासव कुमार सोन ओएफ अमरनाथ सोन ओएफ राजा राम 1 ओएफ 2 पार्ट सरोज बाला स्वध्व ओएम प्रकाश सोन ओएफ अमर नाथ 1 ओएफ 8 पार्ट संजीव कुमार सोन ओएफ ओएम प्रकाश सोन ओएफ अमर नाथ पार्ट पवन कुमार सोन ओएफ ओएम प्रकाश सोन ओएफ अमर नाथ 1 ओएफ 8 पार्ट 822/2
75	822/3	निजी	चाही	0.0506	ससव कुमार, पुत्र अमरनाथ, पुत्र राजा राम, आधा भाग सरोज बाला, स्वध्वा उम प्रकाश, पुत्र अमर नाथ, 1/8 भाग, संजीव कुमार, पुत्र उम्म प्रकाश, पुत्र अमर नाथ, भाग पवन कुमार, पुत्र उम्म प्रकाश पुत्र अमर नाथ का 1/8 भाग
76	822/4	निजी	चाही	0.0211	सासव कुमार सोन ओएफ अमरनाथ सोन ओएफ राजा राम 1 ओएफ 2 पार्ट सरोज बाला स्वध्व ओएम प्रकाश सोन ओएफ अमर नाथ 1 ओएफ 8 पार्ट संजीव कुमार सोन ओएफ ओएम प्रकाश सोन ओएफ अमर नाथ पार्ट पवन कुमार सोन ओएफ ओएम प्रकाश सोन ओएफ अमर नाथ 1 ओएफ 8

					पार्ट 822/4
77	823	निजी	चाही	0.0084	सुखदेव पुत्र राज गोपाल पुत्र श्री चंद 823
78	824	निजी	चाही	0.0211	जगतार सिंह पुत्र बलबीर सिंह 1/6 भाग गुरपाल सिंह पुत्र बलबीर सिंह 1/6 भाग जसिंदर कुमार पुत्र बाबू राम 1/6 भाग निवासी बलसिंदर कुमार पुत्र बाबू राम 1/6 भाग मुकेश कुमार पुत्र कुलदीप सिंह 1/6 भाग इंजी. कुमार पुत्र कुलदीप सिंह 1/6 भाग 824
79	825	निजी	चाही	0.0337	जगतार सिंघ सोन बलबीर सिंघ 1 ओएफ 6 पार्ट गुरपाल सिंघ सोन बलबीर सिंघ 1 ओएफ 6 पार्ट जसिंदर कुमार सोन बाबू राम 1 ओएफ 6 पार्ट रेसिडेंट बलसिंदर कुमार सोन बाबू राम रेसिडेंट 1 ओएफ 6 पार्ट मुकेश कुमार सोन कुलदीप सिंघ 1 ओएफ 6 पार्ट एंगी कुमार सोन कुलदीप सिंघ 1 ओएफ 6 पार्ट 825
80	826	निजी	चाही	0.0126	जगतार सिंह पुत्र बलबीर सिंह 1/6 भाग गुरपाल सिंह पुत्र बलबीर सिंह 1/6 भाग जसिंदर कुमार पुत्र बाबू राम 1/6 भाग निवासी बलसिंदर कुमार पुत्र बाबू राम 1/6 भाग मुकेश कुमार पुत्र कुलदीप सिंह 1/6 भाग इंजी. कुमार पुत्र कुलदीप सिंह 1/6 भाग 826
81	827	निजी	चाही	0.1349	सुसरिंदरपाल सिंह पुत्र हरबंस सिंह 1/2 भाग अवतार सिंह पुत्र हरबंस सिंह 1/2 भाग 827
82	828	निजी	चाही	0.2866	सुरिंदरपाल सिंह पुत्र हरबंस सिंह 1/2 भाग अवतार सिंह पुत्र हरबंस सिंह 1/2 भाग

					828
83	830	निजी	चाही	0.0506	जगतार सिंह पुत्र बलबीर सिंह 1/6 भाग गुरपाल सिंह पुत्र बलबीर सिंह 1/6 भाग जसिंदर कुमार पुत्र बाबू राम 1/6 भाग निवासी बलसिंदर कुमार पुत्र बाबू राम 1/6 भाग मुकेश कुमार पुत्र कुलदीप सिंह 1/6 भाग इंजी. कुमार पुत्र कुलदीप सिंह 1/6 भाग 830
84	834	निजी	चाही	0.0759	बाल सिंह पुत्र मान सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 भाग राय सिंह पुत्र मान सिंह पुत्र फकीर सिंह 1/2 भाग 834
85	835	निजी	चाही	0.1686	सुसरिंदरपाल सिंह पुत्र हरबंस सिंह 1/2 भाग अवतार सिंह पुत्र हरबंस सिंह 1/2 भाग 835
86	841	निजी	चाही	0.4046	दर्शनी देवी स्वाधवा अमर सिंह पुत्र तुगल 651/5528 भाग संतोष कुमारी पुत्री अमर सिंह पुत्र तुगल 135/11056 भाग कसारसाना देवी पुत्री अमर सिंह पुत्र तुगल 17/1382 भाग जय भगवान पुत्र अमर सिंह पुत्र तुघला 6923/11056 भाग संतोष कुमारी पुत्री अमर सिंह पुत्र तुगल 6923/1105 पत्नी सुरख 6923/1105 पुत्र गुरदेव सिंह 60/691 भाग कुलदीप कौर पत्नी परमजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 100/691 भाग और भगवान पुत्र अमर सिंह पुत्र तुगल सिसदर बया दर्शनी देवी स्वाधवा अमर सिंह पुत्र तुगल 1/4 लीड जय भगवान पुत्र अमर सिंह पुत्र तुगला 1/4 2 भाग कसारसाना पुत्री अमर सिंह पुत्र तुगला 1/4 सीसा मुश्तसेरेन खेती मुश्तर 841



87	844	निजी	चाही	0.1054	अमी सिंह पुत्र जोगराज पुत्र रुस्ला 146/155 भाग परसमंदर सिंह पुत्र अमी सिंह पुत्र जोग राज 9/310 भाग रसजिंदर कुमार पुत्र अमी सिंह पुत्र जोग राज 9/310 भाग 844
88	847	निजी	चाही	0.0969	अमी सिंह पुत्र जोगराज पुत्र रुस्ला 146/155 भाग परसमंदर सिंह पुत्र अमी सिंह पुत्र जोग राज 9/310 भाग रसजिंदर कुमार पुत्र अमी सिंह पुत्र जोग राज 9/310 भाग 847
Total				4.0203	

[ फा. सं. NHAI/PIU/CHD/11163/Ambala-Kalaamb/3D]

अभय जैन, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2024

**S.O. 3836 (E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. 413(E) dated 01/02/2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Ambala Shazadpur- Naraingarh- Kalaamb Road Section of NH-72 land from Km 0.000 to Km 32.996 in the District of SAS Nagar, Mohali in the state of Punjab.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Indian Express (English)” and “Ajit (Punjabi)” both dated 03/02/2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central

Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Ambala-Shazadpur- Naraingarh- Kalaamb Road Section of NH-72 land from Km 0.000 to Km 32.996 in the District of SAS Nagar, Mohali in the state of Punjab.**

State: PUNJAB			District: S.A.S Nagar Mohali		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Dera Bassi</b>					
<b>Village: Untala (173)</b>					
1	1005	Private	chahi	0.0042	Gulab Singh son Kehar Singh son Puran Singh 12 part, Paramjit Singh Kehar Singh son Puran Singh 12 part 1005
2	1006	Private	chahi	0.0084	Gulab Singh son Kehar Singh son Puran Singh 12 part, Paramjit Singh Kehar Singh son Puran Singh 12 part 1006
3	1007	Private	chahi	0.0042	Gulab Singh son Kehar Singh son Puran Singh 1/2 part, Paramjit Singh Kehar Singh son Puran Singh 1/2 part 1007
4	1008	Private	chahi	0.0084	Gulab Singh son Kehar Singh son Puran Singh 1/2 part, Paramjit Singh Kehar Singh son Puran Singh 1/2 part 1008
5	1009	Private	chahi	0.0084	Gulab Singh son Kehar Singh son Puran Singh 1/2 part, Paramjit Singh Kehar Singh son Puran

					Singh 1/2 part 1009
6	1011	Private	chahi	0.0042	Gulab Singh son Kehar Singh son Puran Singh 1/2 part, Paramjit Singh Kehar Singh son Puran Singh 1/2 part 1011
7	1012	Private	chahi	0.0042	Gulab Singh son Kehar Singh son Puran Singh 1/2 part, Paramjit Singh Kehar Singh son Puran Singh 1/2 part 1012
8	1018	Private	chahi	0.0042	Gulab Singh son Kehar Singh son Puran Singh 1/2 part, Paramjit Singh Kehar Singh son Puran Singh 1/2 part 1018
9	1019	Private	chahi	0.0042	Mahima son Jitu son Jai Singh 1/32 part, Madan Pal son Jitu son Jai Singh 1/32 part, Sukhdev Singh son Dakhia 1/32 part, Hazara Singh son Dalip Singh son Mutab Singh 1/4 part, Jang Singh son Gulzar Singh Son Dalip Singh 1/16 part, Didar Singh son Dalip Singh son Mutab Singh 1/8 part, Hakiya son Jai Ram 1/8 part, Balwanti widow Puran Singh son Jai Singh 1/32 part, Kamini daughter Puran Singh son Jai Singh 1 /32 part, Matesi daughter Puran Singh son Jai Singh 1/32 part, Amro daughter Puran Singh son Jai Singh 1/32 part, Pal Singh son Sardar Singh 1/40 part, Joginder Singh son Sardar Singh 1/40 part, Rajkumar son Sardar Singh 1/40 part,

					Karamjit Singh son Sardar Singh 1/40 part, Balbir Singh son Mahender Singh son Sardar Singh 1/40 Part, Manjit Kaur widow Gursaran Singh son Hazara Singh 1/48 part, Randeep Singh son Gursaran Singh son Hazara Singh 1/48 part, Hardeep Singh son Gursaran Singh son Hazara Singh 1/48 part, Sukhjinder Kaur wife Jaswinder Singh son Singh Ram 1 /32 part 1019
10	1022	Private	chahi	0.0042	Singh Ram son Gurdial Singh son Bakhtar 1/2 part, Ajab Singh son Dhaniram son Hamela 1/10 part, Jamel Singh son Dhaniram son Hamela 1/10 part, Man Singh son Dhaniram son Hamela 1/10 part, Samsheer Singh son Dhaniram son Hamela 1/10 part, Saleshe wife Mahender Singh son Dhaniram 1/10 part and Singh Ram son Gurdial Singh son Bakhtar Singh 1022
11	1023	Private	chahi	0.0042	Singh Ram son Gurdial Singh son Bakhtar 1/2 part, Ajab Singh son Dhaniram son Hamela 1/10 part, Jamel Singh son Dhaniram son Hamela 1/10 part, Man Singh son Dhaniram son Hamela 1/10 part, Samsheer Singh son Dhaniram son Hamela 1/10 part, Saleshe wife Mahender Singh son Dhaniram 1/10 part and

					Singh Ram son Gurdial Singh son Bakhtar Singh 1023
12	1107	Private	chahi	0.0042	Karamjit Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part, Amrik Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part, Baldeep Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part, Sukhdeep Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part 1107
13	1109	Private	chahi	0.0042	Karamjit Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part, Amrik Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part, Baldeep Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part, Sukhdeep Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part 1109
14	1110	Private	chahi	0.0042	Karamjit Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part, Amrik Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part, Baldeep Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part, Sukhdeep Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part 1110
15	1111	Private	chahi	0.0169	Karamjit Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part, Amrik Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part, Baldeep Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part, Sukhdeep Singh son Gurdial Singh son Mukhi Ram 1/4 part 1111

16	1120	Private	chahi	0.0042	Nirmal Singh son Pala Singh son Mukh Ram 1/2 part, Deepak Singh Nirmal Singh son Pala Singh 1/3 part, Pale Devi wife Pala Singh 1/6 part 1120
17	1121	Private	chahi	0.0084	Nirmal Singh son Pala Singh son Mukh Ram 1/2 part, Deepak Singh Nirmal Singh son Pala Singh 1/3 part, Pale Devi wife Pala Singh 1/6 part 1121
18	563	Private	chahi	0.0801	Mahinder Singh son Nanak son Padia 154/3571 Vinay Sohals wife Subhash Sohal 17533197/95309932864 Gurcharan Kaur wife Jaspal Singh son Rikhia Ram 1/12 part, Dalbir Singh son Jaspal Singh son Rikhia Ram 1/12 part, Balbir Singh son Jaspal Singh son Rikhiya Ram 1/12 part, Shivak Sohal son Subhash Sohal 23169927/476549664320 part, Gurmukh Singh son Baljinder Singh 4663/35720 part, Gurmukh Singh son Baljinder Singh 1087/14284 part, Surmukh Singhs son Bakshish Singh son Nanak Singh 2477/35720 part, Balwinder Singh son Surjit Singh son Dil Ram 1/12 part, Malkit Singh son Dil Ram son Nanak 1/12 part, Palwinder Singh son Bikram Singh son Dil Ram 1/12 part, Gurjit Kaur wife Baljinder Singh son Gurmukh Singh resident village

					Kardhan Post Office Industrial Area Ambala (Haryana) 1209/14288 part, and Mahinder Singh son Nanak son Padia stakeholder Baya Balveer Singh son Sardar Singh son Mahinder Singh 1/16 part, Karamjit Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 1/144 part, Gurmeet Singh son Harvinder Singh 1/6 part, Pal Singh son Sardar Singh Son Dalip Singh 1/144 part, Raj Kumar son Sardar son Dalip Singh 1/144 part 563
19	564	Private	chahi	0.0211	Mahinder Singh son Nanak son Padia 154/3571 Vinay Sohals wife Subhash Sohal 17533197/95309932864 Gurcharan Kaur wife Jaspal Singh son Rikhia Ram 1/12 part, Dalbir Singh son Jaspal Singh son Rikhia Ram 1/12 part, Balbir Singh son Jaspal Singh son Rikhiya Ram 1/12 part, Shivak Sohal son Subhash Sohal 23169927/476549664320 part, Gurmukh Singh son Baljinder Singh 4663/35720 part, Gurmukh Singh son Baljinder Singh 1087/14284 part, Surmukh Singhs son Bakshish Singh son Nanak Singh 2477/35720 part, Balwinder Singh son Surjit Singh son Dil Ram 1/12 part, Malkit Singh son Dil Ram son Nanak 1/12 part, Palwinder Singh son Bikram Singh son Dil

					Ram 1/12 part, Gurjit Kaur wife Baljinder Singh son Gurmukh Singh resident village Kardhan Post Office Industrial Area Ambala (Haryana) 1209/14288 part, and Mahinder Singh son Nanak son Padia stakeholder Baya Balveer Singh son Sardar Singh son Mahinder Singh 1/16 part, Karamjit Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 1/144 part, Gurmeet Singh son Harvinder Singh 1/6 part, Pal Singh son Sardar Singh Son Dalip Singh 1/144 part, Raj Kumar son Sardar son Dalip Singh 1/144 part 564
20	566	Private	chahi	0.2782	Mahinder Singh son Nanak son Padia 154/3571 Vinay Sohals wife Subhash Sohal 17533197/95309932864 Gurcharan Kaur wife Jaspal Singh son Rikhia Ram 1/12 part, Dalbir Singh son Jaspal Singh son Rikhia Ram 1/12 part, Balbir Singh son Jaspal Singh son Rikhiya Ram 1/12 part, Shivak Sohal son Subhash Sohal 23169927/476549664320 part, Gurmukh Singh son Baljinder Singh 4663/35720 part, Gurmukh Singh son Baljinder Singh 1087/14284 part, Surmukh Singhs son Bakshish Singh son Nanak Singh 2477/35720 part, Balwinder Singh son Surjit Singh son Dil Ram 1/12 part, Malkit



					<p>Singh son Dil Ram son Nanak 1/12 part, Palwinder Singh son Bikram Singh son Dil Ram 1/12 part, Gurjit Kaur wife Baljinder Singh son Gurmukh Singh resident village Kardhan Post Office Industrial Area Ambala (Haryana) 1209/14288 part, and Mahinder Singh son Nanak son Padia stakeholder Baya Balveer Singh son Sardar Singh son Mahinder Singh 1/16 part, Karamjit Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 1/144 part, Gurmeet Singh son Harvinder Singh 1/6 part, Pal Singh son Sardar Singh Son Dalip Singh 1/144 part, Raj Kumar son Sardar son Dalip Singh 1/144 part 566</p>
21	567	Private	chahi	0.0379	<p>Mahinder Singh son Nanak son Padia 154/3571 Vinay Sohals wife Subhash Sohal 17533197/95309932864 Gurcharan Kaur wife Jaspal Singh son Rikhia Ram 1/12 part, Dalbir Singh son Jaspal Singh son Rikhia Ram 1/12 part, Balbir Singh son Jaspal Singh son Rikhiya Ram 1/12 part, Shivak Sohal son Subhash Sohal 23169927/476549664320 part, Gurmukh Singh son Baljinder Singh 4663/35720 part, Gurmukh Singh son Baljinder Singh 1087/14284 part, Surmukh Singhs son Bakshish Singh son</p>

					<p>Nanak Singh 2477/35720 part, Balwinder Singh son Surjit Singh son Dil Ram 1/12 part, Malkit Singh son Dil Ram son Nanak 1/12 part, Palwinder Singh son Bikram Singh son Dil Ram 1/12 part, Gurjit Kaur wife Baljinder Singh son Gurmukh Singh resident village Kardhan Post Office Industrial Area Ambala (Haryana) 1209/14288 part, and Mahinder Singh son Nanak son Padia stakeholder Baya Balveer Singh son Sardar Singh son Mahinder Singh 1/16 part, Karamjit Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 1/144 part, Gurmeet Singh son Harvinder Singh 1/6 part, Pal Singh son Sardar Singh Son Dalip Singh 1/144 part, Raj Kumar son Sardar son Dalip Singh 1/144 part 567</p>
22	574	Private	chahi	0.0169	<p>Mahinder Singh son Nanak son Padia 154/3571 Vinay Sohals wife Subhash Sohal 17533197/95309932864 Gurcharan Kaur wife Jaspal Singh son Rikhia Ram 1/12 part, Dalbir Singh son Jaspal Singh son Rikhia Ram 1/12 part, Balbir Singh son Jaspal Singh son Rikhiya Ram 1/12 part, Shivak Sohal son Subhash Sohal 23169927/476549664320 part, Gurmukh Singh son Baljinder Singh 4663/35720 part, Gurmukh Singh son</p>

					<p>Baljinder Singh 1087/14284 part, Surmukh Singhs son Bakshish Singh son Nanak Singh 2477/35720 part, Balwinder Singh son Surjit Singh son Dil Ram 1/12 part, Malkit Singh son Dil Ram son Nanak 1/12 part, Palwinder Singh son Bikram Singh son Dil Ram 1/12 part, Gurjit Kaur wife Baljinder Singh son Gurmukh Singh resident village Kardhan Post Office Industrial Area Ambala (Haryana) 1209/14288 part, and Mahinder Singh son Nanak son Padia stakeholder Baya Balveer Singh son Sardar Singh son Mahinder Singh 1/16 part, Karamjit Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 1/144 part, Gurmeet Singh son Harvinder Singh 1/6 part, Pal Singh son Sardar Singh Son Dalip Singh 1/144 part, Raj Kumar son Sardar son Dalip Singh 1/144 part 574</p>
23	592	Private	chahi	0.0042	<p>Surjit Singh son Miha Singh son Maluka 1/12 part, Labh Singh son Miha Singh son Maluka 1/12 part, Naseeb Singh son Miha Singh son Maluka 1/12 part, Jagir Singh son Maluka son Mahna Singh 1/4 part, Babu Singh Son Maluka son Month Singh 1/4 part, Malukas son Miha Singhs son Gulzar Singh 1/20 part, Hakim Singh son Miha Singh son</p>

					Maluka 1/20 part, Ajib Singh son Miha Singh son Maluka 1/20 part, Ranbir Singh Uttar Miha Singh son Maluka 1/20 part, Ravinder Singh son Karnal Singh son Miha Singh 1/20 part, and Ajibi Singh son Miha Singh son Maluka 1/5 part, Miha Singh son Gulzar Singh son Maluka 1/5 part, Ranbir Singh son Miha Singh son Maluka 1/5 part , Ravinder Singh son Karnal Singh son Miha Singh 1/5 part, Hakam Singh son Maluka 1/5 part 592
24	593	Private	chahi	0.0084	Surjit Singh son Miha Singh son Maluka 1/12 part, Labh Singh son Miha Singh son Maluka 1/12 part, Naseeb Singh son Miha Singh son Maluka 1/12 part, Jagir Singh son Maluka son Mahna Singh 1/4 part, Babu Singh Son Maluka son Month Singh 1/4 part, Malukas son Miha Singhs son Gulzar Singh 1/20 part, Hakim Singh son Miha Singh son Maluka 1/20 part, Ajeeb Singh son Miha Singh son Maluka 1/20 part, Ranbir Singh ut Miha Singh son Maluka 1/20 part, Ravinder Singh son Karnal Singh son Miha Singh 1/20 part, and Jahangir Singh son Maluka Singh son Miha Singh 593
25	629	Private	chahi	0.1138	Malkit Singh son Amarjit

					Singh son Bachan Singh 213/980 parts, Harpreet Singh son Surjit Singh son Bachan Singh 55/196 Joginder Singh son Sarda Singh son Chuhan Singh 123/490 parts, Amar Singh son Sarda Singh son Chuhan Singh 123/490 629
26	630	Private	chahi	0.0084	Malkit Singh son Amarjit Singh son Bachan Singh 213/980 parts, Harpreet Singh son Surjit Singh son Bachan Singh 55/196 Joginder Singh son Sarda Singh son Chuhan Singh 123/490 parts, Amar Singh son Sarda Singh son Chuhan Singh 123/490 630
27	631	Private	chahi	0.2403	Malkit Singh son Amarjit Singh son Bachan Singh 213/980 parts, Harpreet Singh son Surjit Singh son Bachan Singh 55/196 Joginder Singh son Sarda Singh son Chuhan Singh 123/490 parts, Amar Singh son Sarda Singh son Chuhan Singh 123/490 631
28	632	Private	Chahi	0.0042	Hardayal Singh son Sawai son Babu Singh 285/944 part, Harpreet Singh son Surjit Singh son Bachan Singh 89/944 part, Amrik Singh son Gurdial Singh son Sawai 1781/11800 part, Jaswant Singh son Gurdial Singh son Sawai 1781/11800 part, Baljinder Singh son Gurdial Singh son Sawai 3563/23600 Bhag.

					Harinder Singh son Gurdial Singh son Sawai 3563/23600 632
29	633	Private	chahi	0.0295	Hardayal Singh son Sawai son Babu Singh 285/944 part, Harpreet Singh son Surjit Singh son Bachan Singh 89/944 part, Amrik Singh son Gurdial Singh Singh son Sawai 1781/11800 part, Jaswant Singh son Gurdial Singh son Sawai 1781/11800 part, Baljinder Singh son Gurdial Singh son Sawai 3563/23600 Bhag, Harinder Singh son Gurdial Singh son Sawai 3563/23600 633
30	638	Private	chahi	0.0379	Hardayal Singh son Sawai son Babu Singh 285/944 part, Harpreet Singh son Surjit Singh son Bachan Singh 89/944 part, Amrik Singh son Gurdial Singh Singh son Sawai 1781/11800 part, Jaswant Singh son Gurdial Singh son Sawai 1781/11800 part, Baljinder Singh son Gurdial Singh son Sawai 3563/23600 Bhag, Harinder Singh son Gurdial Singh son Sawai 3563/23600 638
31	639	Private	chahi	0.0126	Hardayal Singh son Sawai son Babu Singh 285/944 part, Harpreet Singh son Surjit Singh son Bachan Singh 89/944 part, Amrik Singh son Gurdial Singh Singh son Sawai 1781/11800 part, Jaswant Singh son

					Gurdial Singh son Sawai 1781/11800 part, Baljinder Singh son Gurdial Singh son Sawai 3563/23600 part, Harinder Singh son Gurdial Singh son Sawai 3563/23600 and Gulzar Singh son Babu Singh son Ranjit Singh 5/24 part, Babu Singhs son Shiv Dayal son Ranjit Singhs son 5/24 part, Babu Singhs son Um Prakash, Ranjit Singhs son 5/24 part, Babu Singhs son Sardar Singh Ranjit Singhs son 5/24 part, Mahinder daughter Arjan Singh 1/6 part, and Um Prakash son Babu Singh son Ranjit Singh 1/4 part, Gulzar Singh son Babu Singh son Ranjit Singh 1/4 part, Sardar Singh son Babu Singh son Ranjit Singh 1/4 part, Shiv Dayal son Babu Singhs son Ranjit Singh 1/4 part, 639
32	879	Private	chahi	0.0042	Sahib Singh son Nanaks son 1/3 part of Sada, Randeep Singh son Nanaks son 1/3 part of Sada, Balbir Singh son Mahinder Singh son Sardar Singhs 1/12 part, Pal Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 1/12 part, Raj Kumar son Sardar Singh son Duleep union 1/12 part, Karamjit Singh son Sardar Singh son Duleep union 1/12 part, 879
33	880	Private	chahi	0.0042	Sahib Singh son Nanaks son 1/3 part of Sada,

					Randeep Singh son Nanaks son 1/3 part of Sada, Balbir Singh son Mahinder Singh son Sardar Singhs 1/12 part, Pal Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 1/12 part, Raj Kumar son Sardar Singh son Duleep union 1/12 part, Karamjit Singh son Sardar Singh son Duleep union 1/12 part, 880
34	882	Private	chahi	0.0042	Sahib Singh son Nanaks son 1/3 part of Sada, Randeep Singh son Nanaks son 1/3 part of Sada, Balbir Singh son Mahinder Singh son Sardar Singhs 1/12 part, Pal Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 1/12 part, Raj Kumar son Sardar Singh son Duleep union 1/12 part, Karamjit Singh son Sardar Singh son Duleep union 1/12 part, 882
35	887	Private	chahi	0.0042	Sahib Singh son Nanak son 1 of 3 share Amarjit Singh son Nanak son always 149 of 4570098 part Randeep Singh son Nanak son always 1 of 3 part Sardar Singh son Joginder Singh 2 of 169 part Pal Singh son Sardar Singh 9 of 676 part Raj Kumar son Sardar Singh 9 of 676 part Karamjit Singh son Sardar Singh 9 of 676 part Sardar son Mahinder Singh son Balbir Singh 9 of 676 part Raj Kumar son Sardar Singh son Dalip Singh 5 of 676 parts Pal



					Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5 of 676 part Karamjit Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5 of 676 part Sardar son Mahinder Singh son Balbir Singh 5 of 676 part Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail 2471 of 9014 part Amarjit Singh son Nanak son Sada 1 of 2 part Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail Singh 1 of 2 part 887
36	888	Private	chahi	0.0042	Sahib Singh son Nanaks son one-third of the share, Amarjit Singhs son Nanaks son always 149/4570098 part, Randeep Singhs son Nanaks son always 1/3 part, Sardar Singhs son Joginder Singh 2/169 part, Pal Singh son Sardar Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh 9/676 part, Karamjit Singh son Sardar Singh 9/676 part, Sardars son Mahinder Singh son Balbir Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh son Dalip Singh 5/ 676 parts, Pal Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Karamjit Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Sardar son Mahinder Singh son Balbir Singh 5/676 part Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail 2471/9014 part , Amarjit Singh son Nanak son Sada 1/2 part, Gurmeet Kaur wife

					Palwinder Singh son Jarnail Singh 1/2 part, 888
37	889	Private	chahi	0.0042	Sahib Singh son Nanaks son one-third of the share, Amarjit Singhs son Nanaks son always 149/4570098 part, Randeep Singhs son Nanaks son always 1/3 part, Sardar Singhs son Joginder Singh 2/169 part, Pal Singh son Sardar Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh 9/676 part, Karamjit Singh son Sardar Singh 9/676 part, Sardars son Mahinder Singh son Balbir Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh son Dalip Singh 5/ 676 parts, Pal Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Karamjit Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Sardar son Mahinder Singh son Balbir Singh 5/676 part Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail 2471/9014 part , Amarjit Singh son Nanak son Sada 1/2 part, Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail Singh 1/2 part, 889
38	891	Private	chahi	0.0042	Sahib Singh son Nanaks son one-third of the share, Amarjit Singhs son Nanaks son always 149/4570098 part, Randeep Singhs son Nanaks son always 1/3 part, Sardar Singhs son Joginder Singh 2/169 part, Pal Singh son

					Sardar Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh 9/676 part, Karamjit Singh son Sardar Singh 9/676 part, Sardars son Mahinder Singh son Balbir Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh son Dalip Singh 5/ 676 parts, Pal Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Karamjit Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Sardar son Mahinder Singh son Balbir Singh 5/676 part Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail 2471/9014 part , Amarjit Singh son Nanak son Sada 1/2 part, Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail Singh 1/2 part, 891
39	899	Private	chahi	0.0042	Sahib Singh son Nanaks son one-third of the share, Amarjit Singhs son Nanaks son always 149/4570098 part, Randeep Singhs son Nanaks son always 1/3 part, Sardar Singhs son Joginder Singh 2/169 part, Pal Singh son Sardar Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh 9/676 part, Karamjit Singh son Sardar Singh 9/676 part, Sardars son Mahinder Singh son Balbir Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh son Dalip Singh 5/ 676 parts, Pal Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Karamjit Singh son Sardar Singh

					son Dalip Singh 5/676 part Sardar son Mahinder Singh son Balbir Singh 5/676 part Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail 2471/9014 part , Amarjit Singh son Nanak son Sada 1/2 part, Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail Singh 1/2 part, 899
40	901	Private	chahi	0.0295	Sahib Singh son Nanaks son one-third of the share, Amarjit Singhs son Nanaks son always 149/4570098 part, Randeep Singhs son Nanaks son always 1/3 part, Sardar Singhs son Joginder Singh 2/169 part, Pal Singh son Sardar Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh 9/676 part, Karamjit Singh son Sardar Singh 9/676 part, Sardars son Mahinder Singh son Balbir Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh son Dalip Singh 5/ 676 parts, Pal Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Karamjit Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Sardar son Mahinder Singh son Balbir Singh 5/676 part Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail 2471/9014 part , Amarjit Singh son Nanak son Sada 1/2 part, Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail Singh 1/2 part, 901
41	902	Private	chahi	0.0042	Sahib Singh son Nanaks

					son one-third of the share, Amarjit Singhs son Nanaks son always 149/4570098 part, Randeep Singhs son Nanaks son always 1/3 part, Sardar Singhs son Joginder Singh 2/169 part, Pal Singh son Sardar Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh 9/676 part, Karamjit Singh son Sardar Singh 9/676 part, Sardars son Mahinder Singh son Balbir Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh son Dalip Singh 5/ 676 parts, Pal Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Karamjit Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Sardar son Mahinder Singh son Balbir Singh 5/676 part Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail 2471/9014 part , Amarjit Singh son Nanak son Sada 1/2 part, Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail Singh 1/2 part, 902
42	903	Private	chahi	0.0042	Sahib Singh son Nanaks son one-third of the share, Amarjit Singhs son Nanaks son always 149/4570098 part, Randeep Singhs son Nanaks son always 1/3 part, Sardar Singhs son Joginder Singh 2/169 part, Pal Singh son Sardar Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh 9/676 part, Karamjit Singh son Sardar Singh 9/676 part,

					Sardars son Mahinder Singh son Balbir Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh son Dalip Singh 5/ 676 parts, Pal Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Karamjit Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Sardar son Mahinder Singh son Balbir Singh 5/676 part Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail 2471/9014 part , Amarjit Singh son Nanak son Sada 1/2 part, Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail Singh 1/2 part, 903
43	904	Private	chahi	0.0084	Sahib Singh son Nanaks son one-third of the share, Amarjit Singhs son Nanaks son always 149/4570098 part, Randeep Singhs son Nanaks son always 1/3 part, Sardar Singhs son Joginder Singh 2/169 part, Pal Singh son Sardar Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh 9/676 part, Karamjit Singh son Sardar Singh 9/676 part, Sardars son Mahinder Singh son Balbir Singh 9/676 part, Raj Kumar son Sardar Singh son Dalip Singh 5/ 676 parts, Pal Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Karamjit Singh son Sardar Singh son Dalip Singh 5/676 part Sardar son Mahinder Singh son Balbir Singh 5/676 part Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh

					son Jarnail 2471/9014 part , Amarjit Singh son Nanak son Sada 1/2 part, Gurmeet Kaur wife Palwinder Singh son Jarnail Singh 1/2 part, 904
44	933	Private	chahi	0.0084	Dharampal son Didar Singh 20/4771 part, Jai Singh son Didar Singh 20/4771 part, Mewa Singh son Didar Singh 20/4771 part, Rajveer Singh son Jarnail Singh son Amar Singh 79/4771 part, Dharamvir Singh son Jarnail Singh son Amar Singh 80/4771 part, Gurmeet Singh son Jarnail Singh son Amar Singh 80/4771 part, Karnal Singh son Amar Singh son Kura 158/4771 part, Amar Singh son Sahib Singh girl son 239/4771 part, Amar Singh son Ajibi Singh son Virgo 239/4771 part, Singh son Hans Raj son Inder 119/4771 part, Gurpal Singh son Hans Raj son Issar 10157343/454485460 part, Inder Singh son Kiran Pal son Bunty Singh son Inder Singh 239/4771 part, Devo widow Sant Singh son Chhajju 170/4771 part , Tejpal alias Teja Singh son Sant Singh son Sparsh 321/ 4771 part, Baljinder Singh son Sant Singh son Chhajju 369/ 4771 part, Raghuveer Singh son Sant Singh son Chhajju 4803/76336 part, Balvir Singh son Sant Singh son Chhajju 370/4771 part, Hakim

					<p>Singh son Sant Singh 120/4771 part, Chuhan Singh son Didar Singh 20/4771 part, Balbir Singh son Joginder Singh son Amar Singh 60/4771 part, Kawaljeet Kaur wife Ajeeb Singh son Amar Singh 48/4771 part, son of Hakim Singh Aniket Sant Singhs son 13/367 part, 933</p>
45	934	Private	chahi	0.0042	<p>Dharampal son Didar Singh 20/4771 part, Jai Singh son Didar Singh 20/4771 part, Mewa Singh son Didar Singh 20/4771 part, Rajveer Singh son Jarnail Singh son Amar Singh 79/4771 part, Dharamvir Singh son Jarnail Singh son Amar Singh 80/4771 part, Gurmeet Singh son Jarnail Singh son Amar Singh 80/4771 part, Karnal Singh son Amar Singh son Kura 158/4771 part, Amar Singh son Sahib Singh girl son 239/4771 part, Amar Singh son Ajibi Singh son Virgo 239/4771 part, Singh son Hans Raj son Inder 119/4771 part, Gurpal Singh son Hans Raj son Issar 10157343/454485460 part, Inder Singh son Kiran Pal son Bunt Singh son Inder Singh 239/4771 part, Devo widow Sant Singh son Chhajju 170/4771 part , Tejpal alias Teja Singh son Sant Singh son Sparsh 321/ 4771 part, Baljinder Singh son Sant Singh son Chhajju 369/</p>



					4771 part, Raghuveer Singh son Sant Singh son Chhajju 4803/76336 part, Balvir Singh son Sant Singh son Chhajju 370/4771 part, Hakim Singh son Sant Singh 120/4771 part, Chuhar Singh son Didar Singh 20/4771 part, Balbir Singh son Joginder Singh son Amar Singh 60/4771 part, Kawaljeet Kaur wife Ajeeb Singh son Amar Singh 48/4771 part, son of Hakim Singh Aniket Sant Singhs son 13/367 part, 934
<b>Village: Malan (172)</b>					
46	17//25	Private	chahi	0.0084	Gurmez Singh son Sarup Singh son Inder Singh 1/12 part Gurbaksh Singh son Sarup Singh son Inder Singh 1/12 part Karam Singh son Krishan son Narayan 1/4 part Panarmel Singh son Gurdev Singh son Krishan 1/12 part Colonel Singh son Gurdev Singh son Krishan 1/12 part General Singh son Gurdev Singh son Krishan 1/12 part Nachtar Singh son Teja Singh son Vipram Singh 1/12 part Kuldeep Singh 1/12 part of Teja Singh son Vipram Singh 1/12 part Jagtar Singh son Teja Singh son Vapraram Singh 1/12 part Naseeb Singh son Sarup Singh resident Masan 1/12 part nd Karnal Singh son Gurdev Singh son Krishnan 1/6 part Karam

					Singh son Krishna son Narayan 1/2 part General Singh son Gurdev Singh son Krishan 1/6 part Panarmel Singh son Krishan 1/6 part 17//25
47	18//12	Private	chahi	0.0042	Gurmej Singh son Sarup Singh son Inder Singh 1/6 part Gurbaksh Singh son Sarup Singh son Inder Singh 1/6 part Nachhatar Singh son Teja Singhs son Vasram Singhs 1/6 part Kuldeep Singh son Teja Singhs son Vasram Singhs 1/6 part Jagtar Singhs son Teja Singhs son Vasram Singhs son 1/6 Naseeb Singh son of Sarup Singh 1/6 par 18//12
48	18//14/2	Private	chahi	0.0042	Suresh Pal son Roshan Lal son Hansraj 1/2 part Sukhbir Singh son Roshan Lal son Hansraj 1/2 part 18//14/2
49	18//19/2	Private	chahi	0.0042	Karam Singh son Krishna son Narayan 1/2 part Sanarmail Singh son Gurdev Singh son Krishna Gurdev Singh son Karnal Singh son Krishna 1/6 part Jarnail Singh son Gurdev Singh son Krishna 1/6 par 18//19/2
50	18//4	Private	chahi	0.0379	Balveer Singh S/ Ram Singh S/o Bakhtor Singh Bilharin 131/2300 Part, Wa Nij Rhin 37/575 Part, Dalvir S/o Ram Singh S/o Bakhtor singh bilharin 131/2300 part, wa nij rahin 37/575 part, Hateshwar Niwasi Rajan

					<p>Goyal S/o Vijay Goyal 74/575 Share Bilharin, Murthin Ram Singh S/o Bakhtor Singh S/o Jot Ram 74/575 Part Bilharin, Bhupinder Singh s/o Balvinder Singh 121/1150 Part Bilharin, Jasmer Singh S/o Balwinder Singh 121/1150 Part Bilharin, tejo devi widwa RamKishan S/o Bakhtor Singh 12/575 hissa Bilharin, Rajwinder kaur D/o ram Kishan S/o Bakhtor Singh 12/575 Hissa, bilharin Angrej Kaur D/o Ram KishanS/o Bakhtor Singh 12/575 Share Bilharin, Raghvir Singh S/o Ram Singh S/o Bakhtor Singh 42/575 Hissaa Bilharin, Angrej Singh S/o Ram Singh S/o Bakhtor Singh 1/575 hissa Bilharin, Dalvir Singh S/o Ram Singh S/o Bakhtor Singh 17/115 hissa Bilharin, Balvir Singh S/o Ram Singh S/o Bakhtor Singh 17/115 Hissa bilharin, Guljar Singh S/o Charanjeet Singh 41/1150 Hissa Bilharin, Surender Singh S/o Guljar Singh Niwasi Goda 41/1150 Hissa Bilharin, Sarash Pal S/o Roshan Lal S/o Hanshraj 2/23 hissa Bilharin, Sukhvir Singh S/o roshan Lal S/o Hanshraj Singh 2/23 Hissa, Bilharin. 18/4</p>
51	21/1	Private	chahi	0.0042	<p>Gurjinder singh S/o Naseeb Singh S/o Swarup Singh 1/24 Part, Gurbaksh Singh S/o</p>

					<p>Swarup Singh S/o Inder Singh 1/6 Hissa Gurmej Singh S/ Swarup Singh S/o Inder Singh 1/6 Part, Jasvinder Singh S/o Naseeb Singh S/o Inder Singh Swarup singh 1/24 Sharedharak teja Singh S/o Waryam Singh S/o Inder Singh 1/2 Part, Nakshatar Kaur Widow naseeb Singh S/o Swarup Singh 1/4 Part, Manjeet Kayar D/o Naseeb Singh S/o Swarup Singh 1/24 Part Gair Rushi Hissedaran. 21//1</p>
52	22//12	Private	chahi	0.0843	<p>Joginder Singh S/o Jyoti S/o 1/4 Hissa, Baldev Singh S/o Joginder Singh S/o Jyoti Singh 3/8 Hissa, Kashni W/o Joginder Singh S/o Jyoti 3/8 Share 22//12</p>
53	22//13	Private	chahi	0.0042	<p>Joginder Singh S/o Jyoti S/o 1/4 Hissa, Baldev Singh S/o Joginder Singh S/o Jyoti Singh 3/8 Hissa, Kashni W/o Joginder Singh S/o Jyoti 3/8 Share 22//13</p>
54	22//4	Private	chahi	0.0126	<p>Gurmej Singh son Swaroop Singh son Inder Singh 1/12 part Gurbaksh Singh son Swaroop Singh son Inder Singh 1/12 part Karam Singh Krishan son Narayan son 1/4 part Gurdev Singh son Nirmail Singh son Krishan 1/12 part Gurdev Singh Son of Shrishti, 1/12 part Jarnail Singh son Gurdev Singh son Krishan 1/12 part</p>

					Nachtar Singh son Teja Singh son Waryam Singh 1/12 part Jagtar Singh son Teja Singh Variam Singh 1/12 part Naseeb Singh son Swaroop Singh 1/12 part Naseeb Singh son Sarup Singh was part 1/12 part 22//4
55	22//8	Private	chahi	0.1897	Sadhu son Dayal Singh, Aassha son and Jyoti son Lehana 1/4 part Baldev Singh son Jogidar Singh son Jyoti 3/8 part Krishani wife Jogidar Singh son Jyoti 3/8 part 22//8
<b>Village: Rajapur</b>					
56	702	Private	chahi	0.0211	Samalat deh and Raswandar son Ratan son Tulsi 1/8 part Pawan son Ratan son Tulsi 1/8 part Gursmat Singh son Ratan son Tulsi 1/8 part Kaka Ram son Manohar Lal son Tulsi 1/4 part Sadan Kumar son Manohar Lal son Tulsi 1 / 4 part Somnath son Ratan son Tulsi 1/8 part Gair marusi 702
57	703	Private	chahi	0.0042	Hakim Singh son Sabin Singh son Orta Singh 1/2 part Jagdi Singh son Sabin Singh son Orta Singh 1/2 part and Hakim Singh son Sabeen Singh son Orta Singh 1/2 part and Hakim Singh son Sabin Singh son Orta Singh Sabala ration 209//289 Part or Personal Assistance 80/289 Help Servant Ration Prem Singh S/o Ram Sanwai S/o Pobh

					703
58	704	Private	chahi	0.0126	Hakim Singh son Sabin Singh son Orta Singh 1/2 part Jagdi Singh son Sabin Singh son Orta Singh 1/2 part and Hakim Singh son Sabeen Singh son Orta Singh 1/2 part and Hakim Singh son Sabin Singh son Orta Singh Sabala ration 209//289 Part or Personal Assistance 80/289 Help Servant Ration Prem Singh S/o Ram Sanwai S/o Pobh 704
59	735	Private	chahi	0.0042	Sardar Singhs son Darshani Devi Swadhwa Subha Singh 1/25 part Nasrinder Kumars son Subha Singhs son Sardar Singh 1/25 part Daswinder Kumars son Subha Singhs son 1/25 part Raswinder Kumars son Subha Singhs son Sardar Singh 1/25 Part Kumar son Subha Singh son Sardar Singh 1/25 part Rai Singh son Sardar Singh son Nathu 1/5 part Ranbir Singh son Sardar Singh son Nathu 1/5 part Raghbir Singh son Sardar Singhs son Nathu 1/5 part Yashpal Singh son Sardar Singhs son Nathu 1/5 par 735
60	737	Private	chahi	0.0253	Harful Chand son Rala Ram son Rangi Ram 193/1965 part Samlal son Rala Ram son Rangi Ram 941/6288 Sahasa Deepak Sarma son Jagpal Kumar son Rala Ram 23/2096 part Sita Devi Swadhwa Sabraj

					Lal son Riley Ram 1/15 part Sasav Kumar son Sabraj Lal son Rela Ram 1/15 part Bal Singh son Man Singh son Fakira 17/786 part Rai Singh son Man Sangh son Fakira 17/786 part Sanjeev Kumar son Ved Prakash son Rala Ram 1/10 part Rajiv Kumar son Ved Prakash son Rala Ram 1/10 part Sabozmohan son Kehar Singh 1583/15720 part Rajbala wife Jal Singh Bhar Singh 40/393 part 737
61	740	Private (Gram Panchayat)	G. M Rasta	0.0337	Gram Panchayat 740
62	741	Private	chahi	0.0337	Rajbala Swadh Jal Singh son Bharat Singh 1/4 part Rakesh Kumar son Jal Singh son India Union 1/4 part Savnaud Kumar son Jal Singh son Bharat Singh 1/4 part Jal Singhs son Satish Kumar son of Bharat Singh 1/4 part 741
63	743	Private	chahi	0.2023	Rajbala Swadh Jal Singh son Bharat Singh 1/4 part Rakesh Kumar son Jal Singh son India Union 1/4 part Savnaud Kumar son Jal Singh son Bharat Singh 1/4 part Jal Singhs son Satish Kumar son of Bharat Singh 1/4 par 743
64	769	Private (Gram Panchayat)	G. M Rasta	0.1054	Gram Panchayat 769
65	785	Private	chahi	0.0927	Sasav Kumar son of Amarnath son of Raja Ram 1 of 2 part Saroj Bala Swadhwa Om Prakash son of Amar

					Nath 1 of 8 part Sanjeev Kumar son of Om Prakash son of Amar Nath part Pawan Kumar son of Om Prakash son of Amar Nath 1 of 8 part 785
66	786	Private	chahi	0.0211	Sasav Kumar, son of Amarnath, son of Raja Ram, 1/2 part Saroj Bala, Swadhwa Um Prakash, son of Amar Nath, 1/8 part, Sanjeev Kumar, son of Umm Prakash, son of Amar Nath part Pawan Kumar, son of Umm Prakash, son of Amar Nath 1/8 part 786
67	787	Private	chahi	0.2571	Sasav Kumar, son of Amarnath, son of Raja Ram, 1/2 part Saroj Bala, Swadhwa Um Prakash, son of Amar Nath, 1/8 part, Sanjeev Kumar, son of Umm Prakash, son of Amar Nath part Pawan Kumar, son of Umm Prakash, son of Amar Nath 1/8 part. 787
68	788	Private	chahi	0.0084	Sasav Kumar, son of Amarnath, son of Raja Ram, 1/2 part Saroj Bala, Swadhwa Um Prakash, son of Amar Nath, 1/8 part, Sanjeev Kumar, son of Umm Prakash, son of Amar Nath part Pawan Kumar, son of Umm Prakash, son of Amar Nath 1/8 part. 788
69	817	Private	chahi	0.0211	Sardar Singhs son Darshani Devi Swadhwa Subha Singh 1/25 part Nasrinder Kumars son Subha Singhs son Sardar



					Singh 1/25 part Daswinder Kumars son Subha Singhs son 1/25 part Raswinder Kumars son Subha Singhs son Sardar Singh 1/25 Part Kumar son Subha Singh son Sardar Singh 1/25 part Rai Singh son Sardar Singh son Nathu 1/5 part Ranbir Singh son Sardar Singh son Nathu 1/5 part Raghbir Singh son Sardar Singhs son Nathu 1/5 part Yashpal Singh son Sardar Singhs son Nathu 1/5 part 817
70	818/1	Private	chahi	0.0253	Sasav Kumar, son of Amarnath, son of Raja Ram 1/2 part Saroj Bala Swadhwa Um Prakash son of Amar Nath 1/8 part Sanjeev Kumar son of Umm Prakash, son of Amar Nath part Lead Pawan Kumar son of Umm Prakash son Amar Nath 1/8 part 818/1
71	819	Private	chahi	0.0464	Sasav Kumar, son of Amarnath, son of Raja Ram, 1/2 part Saroj Bala, Swadhwa Um Prakash, son of Amar Nath, 1/8 part, Sanjeev Kumar, son of Umm Prakash, son of Amar Nath part Pawan Kumar, son of Umm Prakash, son of Amar Nath 1/8 part 819
72	820	Private (Gram Panchayat)	G.M. Rasta	0.0295	Gram Panchayat 820
73	821/1	Private	chahi	0.0042	Sasav Kumar son of Amarnath son of Raja Ram 1 of 2 part Saroj Bala Swadhwa Om

					Prakash son of Amar Nath 1 of 8 part Sanjeev Kumar son of Om Prakash son of Amar Nath part Pawan Kumar son of Om Prakash son of Amar Nath 1 of 8 part 821/1
74	822/2	Private	chahi	0.1602	Sasav Kumar son of Amarnath son of Raja Ram 1 of 2 part Saroj Bala Swadhwa Om Prakash son of Amar Nath 1 of 8 part Sanjeev Kumar son of Om Prakash son of Amar Nath part Pawan Kumar son of Om Prakash son of Amar Nath 1 of 8 part 822/2
75	822/3	Private	chahi	0.0506	Sasav Kumar, son of Amarnath, son of Raja Ram, 1/2 part Saroj Bala, Swadhwa Um Prakash, son of Amar Nath, 1/8 part, Sanjeev Kumar, son of Umm Prakash, son of Amar Nath part Pawan Kumar, son of Umm Prakash, son of Amar Nath 1/8 part
76	822/4	Private	chahi	0.0211	Sasav Kumar son of Amarnath son of Raja Ram 1 of 2 part Saroj Bala Swadhwa Om Prakash son of Amar Nath 1 of 8 part Sanjeev Kumar son of Om Prakash son of Amar Nath part Pawan Kumar son of Om Prakash son of Amar Nath 1 of 8 part 822/4
77	823	Private	chahi	0.0084	Sukhdev son Raj Gopal son Sri Chand 823
78	824	Private	chahi	0.0211	Jagtar Singh son Balbir

					Singh 1/6 part Guralp Singh son Balbir Singh 1/6 part Jasinder Kumar son Babu Ram 1/6 part resident Balsinder Kumar son Babu Ram resident 1/6 part Mukesh Kumar son Kuldeep Singh 1/6 part Engg. Kumar son Kuldeep Singh 1/6 part 824
79	825	Private	chahi	0.0337	Jagtar Singh son Balbir Singh 1 of 6 part Guralp Singh son Balbir Singh 1 of 6 part Jasinder Kumar son Babu Ram 1 of 6 part resident Balsinder Kumar son Babu Ram resident 1 of 6 part Mukesh Kumar son Kuldeep Singh 1 of 6 part Enggi Kumar son Kuldeep Singh 1 of 6 part 825
80	826	Private	chahi	0.0126	Jagtar Singh son Balbir Singh 1/6 part Guralp Singh son Balbir Singh 1/6 part Jasinder Kumar son Babu Ram 1/6 part resident Balsinder Kumar son Babu Ram resident 1/6 part Mukesh Kumar son Kuldeep Singh 1/6 part Engg. Kumar son Kuldeep Singh 1/6 part 826
81	827	Private	chahi	0.1349	Susrinderpal Singh son Harbans Singh 1/2 part Avtar Singh son Harbans Singh 1/2 part 827
82	828	Private	chahi	0.2866	surinderpal Singh son Harbans Singh 1/2 part Avtar Singh son Harbans Singh 1/2 part 828
83	830	Private	chahi	0.0506	Jagtar Singh son Balbir

					Singh 1/6 part Gурpal Singh son Balbir Singh 1/6 part Jasinder Kumar son Babu Ram 1/6 part resident Balsinder Kumar son Babu Ram resident 1/6 part Mukesh Kumar son Kuldeep Singh 1/6 part Engg. Kumar son Kuldeep Singh 1/6 part 830
84	834	Private	chahi	0.0759	Bal Singh son Man Singh son Fakir Singh 1/2 part Rai Singh son Man Singh son Fakir Singh 1/2 part 834
85	835	Private	chahi	0.1686	Susrinderpal Singh son Harbans Singh 1/2 part Avtar Singh son Harbans Singh 1/2 part 835
86	841	Private	chahi	0.4046	Darshani Devi Swadhwa Amar Singh son Tughla 651/5528 part Santosh Kumari daughter Amar Singh son Tughla 135/11056 part Kasarsana Devi daughter Amar Singh son Tughla 17/1382 part Jai Bhagwan son Amar Singh son Tughla 6923/11056 part Santosh Kumari daughter Amar Singh son Tughla 6923/1105 Wife Surakh 6923/1105 Son Gurdev Singh 60/691 Part Kuldeep Kaur wife Paramjit Singh son Gurdev Singh 100/691 part and Bhagwan son Amar Singh son Tughla Sisdar Baya Darsani Devi Swadhwa Amar Singh son Tughla 1/4 lead Jai Bhagwan son Amar Singh son Tughla 1/4 2 part Kasarsana

					daughter Amar Singh son Tughla 1/4 lead Mushtseren cultivation Mushtar 841
87	844	Private	chahi	0.1054	Ami Singh son Jograj son Rusla 146/155 part Parsamander Singh son Ami Singh son Jog Raj 9/310 part Rasjinder Kumar son Ami Singh son Jog Raj 9/310 part 844
88	847	Private	chahi	0.0969	Ami Singh son Jograj son Rusla 146/155 part Parsamander Singh son Ami Singh son Jog Raj 9/310 part Rasjinder Kumar son Ami Singh son Jog Raj 9/310 part 847
<b>Total</b>				<b>4.0203</b>	

[F. No. NHAI/PIU/CHD/11163/Ambala-Kalaamb/3D]

ABHAY JAIN, Director